

LIMITED DEPARTMENTAL EXAM ONLINE (PA) PAPER-I)

1. How many bones are there in human body?
 - (1) 201
 - (2) 203
 - (3) 210
 - (4) 206 **ANS**
2. In between two Summer Olympic games there is a difference of years:
 - (1) 2
 - (2) 3
 - (3) 4 **ANS**
 - (4) 6
3. The Opening and Closing ceremonies of Commonwealth Games 2010 had held at:
 - (1) Jawaharlal Nehru Sports Complex **ANS**
 - (2) Indira Gandhi Sports Complex
 - (3) Siri Fort Sports Complex
 - (4) Delhi University
4. During summer days, water kept in an Earthen pot (Pitcher) becomes cool because of phenomenon of:
 - (1) Diffusion
 - (2) Transpiration
 - (3) Osmosis
 - (4) Evaporation **ANS**
5. Which one of the following is not a derived quantity:
 - (1) Density
 - (2) Mass **ANS**
 - (3) Volume
 - (4) Speed
6. A candidate for election to the Rajya Sabha must be not less than:
 - (1) 35 Years of age
 - (2) 25 Years of age
 - (3) 30 Years of age **ANS**
 - (4) 40 Years of age
7. Instrument for measuring humidity:
 - (1) Hygrometer **ANS**
 - (2) Inclinator
 - (3) Hydrometer
 - (4) Hydroscope
8. In which year the slogan 'Quit India' was given by Gandhiji:
 - (1) 1940
 - (2) 1942 **ANS**
 - (3) 1939
 - (4) 1938
9. Which among these is a credit rating agency:
 - (1) ICRA **ANS**
 - (2) SEBI
 - (3) NSE
 - (4) BSE
10. A popular folk song of Uttar Pradesh is known as:
 - (1) Maang
 - (2) Kajri **ANS**
 - (3) Baul
 - (4) Boli
1. मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं?
 - (1) 201
 - (2) 203
 - (3) 210
 - (4) 206
2. दो ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अन्तर होता है?
 - (1) 2
 - (2) 3
 - (3) 4
 - (4) 6
3. कॉमनवेल्थ खेल 2010 का उद्घाटन एवं समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था?
 - (1) जवाहर लाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
 - (2) इंदिरा गाँधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
 - (3) सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
 - (4) दिल्ली विश्वविद्यालय
4. गर्मी के दिनों के दौरान, मिट्टी के बर्तन में रक्खा पानी ठण्डा हो जाता है निम्नलिखित संवृति के कारण:
 - (1) विसरण
 - (2) वाष्पोत्सर्जन
 - (3) ऑस्मोसिस
 - (4) वाष्पीकरण
5. निम्नलिखित में से कौन-सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है:
 - (1) घनत्व
 - (2) द्रव्यमान
 - (3) आयतन
 - (4) चाल
6. राज्य सभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्न से कम नहीं होनी चाहिए:
 - (1) 35 वर्ष
 - (2) 25 वर्ष
 - (3) 30 वर्ष
 - (4) 40 वर्ष
7. आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है:
 - (1) हाइग्रोमीटर
 - (2) इन्क्लाइनोमीटर
 - (3) हाइड्रोमीटर
 - (4) हाइड्रोस्कोप
8. किस वर्ष गाँधी जी द्वारा 'भारत छोड़ो' का नारा दिया गया:
 - (1) 1940
 - (2) 1942
 - (3) 1939
 - (4) 1938
9. इनमें से कौन-सी साख-पत्र के मूल्यांकन की संस्था है:
 - (1) ICRA
 - (2) SEBI
 - (3) NSE
 - (4) BSE
10. उत्तर-प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत है:
 - (1) माँग
 - (2) कजरी
 - (3) बोल
 - (4) बोली

11. **UNICEF has its headquarter in:**
 (1) Washington (2) San Francisco
 (3) Geneva (4) NewYork **ANS**
12. **A stone lying at the bottom of a pond appears to be at a higher point than it actually is due to the phenomena of:**
 (1) Diffraction of light
 (2) Scattering of light
 (3) Reflection of light
 (4) Refraction of light **ANS**
13. **A stick immersed in water appears bent due to the phenomenon of:**
 (1) Reflection of light
 (2) Diffraction of light
 (3) Refraction of light **ANS**
 (4) Dispersion of light
14. **Williams sisters are known for the game:**
 (1) Badminton
 (2) Table-Tennis
 (3) Tennis **ANS**
 (4) None of these
15. **The highest award in sports for a player in India is:**
 (1) Dronacharya
 (2) Arjuna
 (3) Rajiv Gandhi Khel Ratna **ANS**
 (4) Padma-Shree
16. **The official mascot of Olympic Games 2012 is:**
 (1) Appu, the Elephant
 (2) Shera
 (3) Fuwa
 (4) Wenlock and Mandeville **ANS**
17. **ELISA test is used to detect:**
 (1) Malaria infection
 (2) Cholera infection
 (3) HIV infection **ANS**
 (4) Lung infection
18. **How much would a 70 Kg man weigh on the moon?**
 (1) 14 Kg
 (2) 114.1 newtons **ANS**
 (3) 421.67 Kg
 (4) 98.4 Newtons
19. **Identify the river which rises from Tibet:**
 (1) Chenab
 (2) Ravi
 (3) Beas
 (4) Indus **ANS**
11. **यूनीसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है:**
 (1) वाशिंगटन (2) सैनफ्रांसिस्को
 (3) जेनेवा (4) न्यूयार्क
12. **एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर एक उच्च बिन्दु पर रक्खा हुआ प्रतीत होता है जहाँ यह वास्तव में है, किस संवृति के कारण है:**
 (1) प्रकाश का विवर्तन
 (2) प्रकाश का बिखराव
 (3) प्रकाश का परावर्तन
 (4) प्रकाश का अपवर्तन
13. **पानी में डूबोई एक छड़ी किस संवृति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है:**
 (1) प्रकाश का परावर्तन
 (2) प्रकाश का विवर्तन
 (3) प्रकाश का अपवर्तन
 (4) प्रकाश का प्रकीर्ण
14. **विलियमस बहनें निम्न खेल के लिए जानी जाती हैं:**
 (1) बैडमिंटन
 (2) टेबल-टेनिस
 (3) टेनिस
 (4) इनमें से कोई नहीं
15. **खिलाड़ीयों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार हैं**
 (1) द्रोणाचार्य
 (2) अर्जुन
 (3) राजीव गांधी खेल रत्न
 (4) पद्म श्री
16. **ओलंपिक खेल 2012 का अधिकारिक शुभंकर हैं:**
 (1) अप्पू हाथी
 (2) शेरा
 (3) फुआ
 (4) वेनलॉक व मंडेविल
17. **ELISA परीक्षण क्या पता लगाने के लिए करते हैं:**
 (1) मलेरिया का संक्रमण
 (2) हैजे का संक्रमण
 (3) एच.आई.वी. का संक्रमण
 (4) फेफड़े का संक्रमण
18. **70 किग्रा. भार वाले एक व्यक्ति का भार चाँद पर क्या होगा:**
 (1) 14 किग्रा.
 (2) 114.1 न्यूटन
 (3) 421.67 किग्रा.
 (4) 98.4 न्यूटन
19. **तिब्बत से निकलने वाली नदी को पहचानें:**
 (1) चेनब
 (2) रावी
 (3) ब्यास
 (4) इन्डस

20. In history, the name of prince Khurram, came to be known as:
- (1) Jahangir
 - (2) Shahjahan **ANS**
 - (3) Aurangzeb
 - (4) Akbar
21. The ore of Aluminum is called:
- (1) Bauxite **ANS**
 - (2) Galena
 - (3) Mica
 - (4) Manganese
22. National Highway no. 8 connects:
- (1) Delhi to Kolkata
 - (2) Delhi to Mumbai **ANS**
 - (3) Delhi to Lucknow
 - (4) Delhi to Pakistan Border
23. A clinical thermometer indicates temperatures in degree Fahrenheit from:
- (1) 94 To 108 **ANS**
 - (2) 96 to 108
 - (3) 94 to 110
 - (4) 96 to 110
24. Sericulture is related to:
- (1) Cotton production
 - (2) Wool production
 - (3) Soil filtration
 - (4) Silk production **ANS**
25. Which part of body is affected in typhoid:
- (1) Lungs
 - (2) Intestines **ANS**
 - (3) Liver
 - (4) Pancreas
26. Attorney- General is appointed by:
- (1) The President **ANS**
 - (2) The Chief Justice of Supreme Court
 - (3) The Prime Minister
 - (4) The Law Minister
27. The real name of Humayun was:
- (1) Nasir-ud-din **ANS**
 - (2) Sams-ud-din
 - (3) Zahir-ud-din
 - (4) Kamran
28. The words 'Satya Mev Jayete' from Mundaka Upnishad are related to:
- (1) National Anthem of India
 - (2) National Emblem of India **ANS**
 - (3) National Song of India
 - (4) None of these
20. इतिहास में राजकुमार खुर्रम को किस नाम से जाना जाता है:
- (1) जहाँगीर
 - (2) शाहजहाँ
 - (3) औरंगजेब
 - (4) अकबर
21. एल्युमिनियम की कच्ची धातु को क्या कहते हैं:
- (1) बॉक्साइट
 - (2) गैलेना
 - (3) माइका
 - (4) मैंगनीज
22. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 जोड़ता है:
- (1) दिल्ली से कोलकाता
 - (2) दिल्ली से मुम्बई
 - (3) दिल्ली से लखनऊ
 - (4) दिल्ली से पाकिस्तान सीमा
23. एक चिकित्सकीय थर्मामीटर डिग्री फॉरेनहाइट में तापक्रम इंगित करता है:
- (1) 94 से 108 तक
 - (2) 96 से 108 तक
 - (3) 94 से 110 तक
 - (4) 96 से 110 तक
24. सेरीकल्चर संबन्धित है:
- (1) कपास उत्पादन
 - (2) ऊन उत्पादन
 - (3) मृदा छानन
 - (4) सिल्क उत्पादन
25. मियादी ज्वर में शरीर का कौन-सा हिस्सा प्रभावित होता है:
- (1) फेफड़ा
 - (2) आँत
 - (3) यकृत
 - (4) पक्वाशय
26. महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है:
- (1) राष्ट्रपति
 - (2) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
 - (3) प्रधानमंत्री
 - (4) विधिमंत्री
27. हुमायूँ का वास्तविक नाम क्या था:
- (1) नसीरुद्दीन
 - (2) समशुद्दीन
 - (3) जहीरुद्दीन
 - (4) कामरान
28. 'सत्यमेव-जयते' शब्द जो मुण्डक उपनिषद से लिया गया है, निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है:
- (1) भारत का राष्ट्रगान
 - (2) भारत का राष्ट्र-चिन्ह
 - (3) भारत का राष्ट्रगीत
 - (4) इनमें से कोई नहीं

29. Sachin Tendulkar completed his 100th century in a recently held one-day international cricket match against Bangladesh. Who was his companion batsman at the other end when this history was created?
- (1) Gautam Gambhir (2) Suresh Raina **ANS**
(3) Virat Kohli (4) Rohit Sharma
30. How many assembly seats were won by Samajwadi party in the recently held Uttar Pradesh election:
- (1) 224 **ANS**
(2) 226
(3) 206
(4) None of the above is correct
31. Which one of the following teams won the final IPL recently:
- (1) Mumbai Indians
(2) Chennai Super Kings
(3) Royal Challengers Bangalore
(4) Kolkata Knight Riders **ANS**
32. The Indian Parliament consists of:
- (1) Lok Sabha, Rajya Sabha and the President **ANS**
(2) Lok Sabha and Rajya Sabha
(3) Lok Sabha and State assemblies
(4) Lok Sabha only
33. Who was the first Deputy Prime Minister of India:
- (1) Lal Bahadur Shastri
(2) Chowdhary Devi Lal
(3) Sardar Vallabh Bhai Patel **ANS**
(4) Morarji Desai
34. Hirakud dam has been built on the river:
- (1) Ganga
(2) Mahanadi **ANS**
(3) Brahmaputra
(4) Kaveri
35. Who gave the slogan 'Jai Hind':
- (1) Sardar Patel
(2) Subhash Chandra Bose **ANS**
(3) Jawahar Lal Nehru
(4) Mahatma Gandhi
36. Who among the following was the first woman ruler of India:
- (1) Razia Sultan **ANS** (2) Chand Bibi
(3) Nurjahan (4) Mumtaz Mahal
37. Jama Masjid was built by:
- (1) Jehangir
(2) Humayun
(3) Shahjahan **ANS**
(4) Aurangzeb
29. अभी हाल ही में सचिन तेन्दुलकर ने बांग्लादेश के विरुद्ध एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपना 100वाँ शतक पूरा किया। इस ऐतिहासिक मौके पर दूसरे छोर पर उनका सहयोगी बल्लेबाज कौन था:
- (1) गौतम गंभीर
(2) सुरेश रैना
(3) विराट कोहली
(4) रोहित शर्मा
30. अभी हाल ही में आयोजित उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को विधान सभा की कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई:
- (1) 224
(2) 226
(3) 206
(4) उपरोक्त में कोई भी सत्य नहीं
31. अभी हाल ही में किस दल ने IPL का अन्तिम मुक़ाबला जीता:
- (1) मुम्बई इंडियन्स
(2) चेन्नै सुपर किंग्स
(3) रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु
(4) कोलकाता नाईट राईडर्स
32. भारतीय संसद के अंग हैं:
- (1) लोक सभा, राज्य सभा एवं राष्ट्रपति
(2) लोक सभा एवं राज्य सभा
(3) लोक सभा एवं राज्य विधान सभा
(4) केवल लोक सभा
33. भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री कौन थे:
- (1) लाल बहादुर शास्त्री
(2) चौधरी देवी लाल
(3) सरदार बल्लभभाई पटेल
(4) मोरारजी देसाई
34. हीराकुड बांध किस नदी पर बना है:
- (1) गंगा
(2) महानदी
(3) ब्रह्मपुत्र
(4) कावेरी
35. 'जय हिन्द' का नारा किसने दिया था:
- (1) सरदार पटेल
(2) सुभाष चन्द्र बोस
(3) जवाहर लाल नेहरू
(4) महात्मा गांधी
36. निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासक थी:
- (1) रज़िया सुल्तान (2) चाँद बीबी
(3) नूरजहाँ (4) मुमताज महल
37. जामा मस्जिद किसने बनवाया:
- (1) जहांगीर
(2) हुमायूँ
(3) शाहजहाँ
(4) औरंगज़ेब

38. Full form of AIDS is:
- (1) Anti Immune Deficiency Syndrome
 - (2) Auto Immune Deficiency Syndrome
 - (3) Acquired Immuno Deficiency Syndrome **ANS**
 - (4) Acquired Immuno Disease Symptoms
39. Where is Rameshwaram:
- (1) Andhra pradesh
 - (2) Tamil Nadu **ANS**
 - (3) Gujarat
 - (4) Jammu & Kashmir
40. What was the childhood name of Maharani Laxmi Bai of Jhansi:
- (1) Minni
 - (2) Munni
 - (3) Manu **ANS**
 - (4) Monu
41. In case the President of India wishes to resign, to whom he is to address his resignation letter:
- (A) Vice President **ANS.**
 - (B) Prime Minister
 - (C) Chief Justice of India
 - (D) Speaker of the Lok Sabha
42. Mithali Raj is known in the field of:
- (A) Cricket **ANS.**
 - (B) Shooting
 - (C) Wrestling
 - (D) Archery
43. Name the state of India through which tropic of cancer does not pass:
- (A) Rajasthan
 - (B) Madhya Pradesh
 - (C) Gujarat
 - (D) Karnataka **ANS.**
44. The Governor General who abolished the "Sati Pratha" was:
- (A) Lord Butler
 - (B) Lord Hastings
 - (C) Lord W. Bentinck **ANS.**
 - (D) Lord Cornwallis
45. In the freedom movement of India, the year 1930 is associated with the:
- (A) Dandi March **ANS.**
 - (B) Jalianwala Tragedy
 - (C) Partition of Bengal
 - (D) Chauri-Chaura incident
46. Razia-Begam was the daughter of:
- (A) Ghias-ud-din Balban
 - (B) Altamash **ANS.**
 - (C) Qutub-ud-din Aibak
 - (D) Mohammad Ghori
38. एड्स का पूरा नाम क्या है:
- (1) एन्टी इम्यून डिफीसीएन्सी सिन्ड्रोम
 - (2) आटो इम्यून डिफीसीएन्सी सिन्ड्रोम
 - (3) एक्वायर्ड एम्यूनो डिफीसीएन्सी सिन्ड्रोम
 - (4) एक्वायर्ड एम्यूनो डिजीज सिम्टम्स
39. रामेश्वरम कहाँ है:
- (1) आन्ध्र-प्रदेश
 - (2) तमिलनाडु
 - (3) गुजरात
 - (4) जम्मू एवं कश्मीर
40. झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का बचपन का नाम क्या था:
- (1) मिन्नी
 - (2) मुन्नी
 - (3) मनू
 - (4) मोनू
41. भारत के राष्ट्रपति यदि अपने पद से त्याग-पत्र देना चाहते हैं, तो वह अपने त्याग-पत्र को किसे सम्बोधित करेंगे:
- (A) उप-राष्ट्रपति
 - (B) प्रधानमंत्री
 - (C) भारत के मुख्य-न्यायाधीश
 - (D) लोक-सभा का सभापति
42. मिथाली राज को किस क्षेत्र में जाना जाता है:
- (A) क्रिकेट
 - (B) शूटिंग
 - (C) कुश्ती
 - (D) तीरंदाजी
43. निम्नलिखित में से भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है:
- (A) राजस्थान
 - (B) मध्य-प्रदेश
 - (C) गुजरात
 - (D) कर्नाटक
44. सती प्रथा का उन्मूलन करने वाला गर्वनर जनरल था:
- (A) लॉर्ड बटलर
 - (B) लॉर्ड हेस्टिंग्स
 - (C) लॉर्ड डब्ल्यू. बेन्टिंक
 - (D) लॉर्ड कॉर्नवालिस
45. भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में वर्ष 1930 सम्बन्धित है:
- (A) दांडी मार्च से
 - (B) जलियाँवाला की दुःखद घटना से
 - (C) बंगाल के विभाजन से
 - (D) चौरी-चौरा कांड से
46. रज़िया बेगम किसकी पुत्री थी:
- (A) ग्यासुद्दीन बलबन
 - (B) अलतमाश
 - (C) कुतुबुद्दीन ऐबक
 - (D) मोहम्मद गौरी

47. Before being elected as President of India, Mrs. Pratibha Patil was the governor of:
- (A) Uttar Pradesh
(B) Himachal Pradesh
(C) Rajasthan **ANS.**
(D) Punjab
48. The Ex-officio Chairman of Rajya sabha is:
- (A) Hamid Ansari **ANS.**
(B) Pratibha Devi Singh Patil
(C) A.P.J. Abdul Kalam
(D) None of the above
49. The Chemical name of laughing gas is:
- (A) Nitrous Oxide **ANS.**
(B) Nitric Oxide
(C) Nitrogen Oxide
(D) Nitrogen Peroxide
50. In which of the following states is Sariska Tiger Sanctuary located?
- (A) Uttar Pradesh
(B) Rajasthan **ANS.**
(C) Gujarat
(D) Maharashtra
51. What is the chemical name of Gypsum:
- (A) Iron sulphide
(B) Calcium sulphate **ANS.**
(C) Magnesium sulphate
(D) Sodium sulphate
52. Newton is a unit of:
- (A) Work
(B) Energy
(C) Force **ANS.**
(D) Acceleration
53. The number of Upanishads is:
- (A) 100
(B) 108 **ANS.**
(C) 88
(D) None of these
54. Who among the following adopted the title of Vikramaditya:
- (A) Chandra Gupta Maurya
(B) Chandra Gupta I
(C) Chandra Gupta II **ANS.**
(D) Samudragupta
47. भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्रीमती प्रतिभा पाटिल किस राज्य की राज्यपाल थी:
- (A) उत्तर-प्रदेश
(B) हिमाचल-प्रदेश
(C) राजस्थान
(D) पंजाब
48. राज्य-सभा के पदेन अध्यक्ष कौन हैं:
- (A) हामिद अन्सारी
(B) प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
(C) ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
(D) उपर्युक्त में कोई नहीं
49. हँसाने वाले गैस का रसायनिक नाम है:
- (A) नाइट्रोअस ऑक्साइड
(B) नाइट्रिक ऑक्साइड
(C) नाइट्रोजन ऑक्साइड
(D) नाइट्रोजन पेरोक्साइड
50. निम्नलिखित किस राज्य में सरिस्का टाइगर अभ्यारण स्थित है?
- (A) उत्तर-प्रदेश
(B) राजस्थान
(C) गुजरात
(D) महाराष्ट्र
51. जिप्सम का रासायनिक नाम है:
- (A) लौह सल्फाइड
(B) कैल्शियम सल्फेट
(C) मैग्नीशियम सल्फेट
(D) सोडियम सल्फेट
52. न्यूटन किसकी इकाई है:
- (A) कार्य
(B) ऊर्जा
(C) बल
(D) त्वरण
53. उपनिषदों की संख्या है:
- (A) 100
(B) 108
(C) 88
(D) इनमें से कोई नहीं
54. निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई:
- (A) चन्द्रगुप्त मौर्य
(B) चन्द्रगुप्त प्रथम
(C) चन्द्रगुप्त द्वितीय
(D) समुद्रगुप्त

55. Seven separate States now popularly called the seven sisters lie in which part of India:
- (A) North Eastern **ANS.**
 (B) Southern
 (C) Western
 (D) Northern
56. In the third battle of Panipat, the Marathas were defeated by:
- (A) Afghans **ANS.**
 (B) Rajputs
 (C) Mughals
 (D) Sikhs
57. Under Right to Education Act, the children of which of the following age groups are eligible to get free education:
- (A) Upto 5 years
 (B) Between 6 & 10 years
 (C) Between 6 & 14 years **ANS.**
 (D) Between 8 & 12 years
58. The dreaded Cellular jail, now a national monument, is located in:
- (A) Gangtok
 (B) Andaman & Nicobar Islands **ANS.**
 (C) Daman & Diu
 (D) Lakshya Dweep
59. Who will host 2016 Olympic games?
- (A) Tokyo
 (B) Madrid
 (C) Chicago
 (D) Brazil **ANS.**
60. After the transfer of power to British crown who was appointed the first viceroy of India:
- (A) Lord Ripen
 (B) Lord Canning
 (C) Lord Curzon **ANS.**
 (D) Lord Irwin
61. Tembli became the first AADHAR village in India. The village is located in the state of:
- (A) Karnataka
 (B) Madhya Pradesh
 (C) Maharastra **ANS.**
 (D) Uttar Pradesh
62. Which one of the following is the highest gallantry award:
- (A) Ashok Chakra
 (B) Mahavir Chakra
 (C) Param Vir Chakra **ANS.**
 (D) Kirti Chakra
55. सात पृथक राज्य जो सात बहनों के नाम से लोकप्रिय है, भारत के किस भाग में स्थित हैं:
- (A) उत्तरी-पूर्वी
 (B) दक्षिणी
 (C) पश्चिमी
 (D) उत्तरी
56. पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए:
- (A) अफगानों द्वारा
 (B) राजपूतों द्वारा
 (C) मुगलों द्वारा
 (D) सिखों द्वारा
57. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत किस उम्र समुदाय के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाने के लिए अर्ह हैं:
- (A) 5 वर्ष तक
 (B) 6 से 10 वर्ष के मध्य
 (C) 6 से 14 वर्ष के मध्य
 (D) 8 से 12 वर्ष के मध्य
58. भंयकर सेल्युलर जेल, जो अब एक राष्ट्रीय स्मारक है, कहाँ स्थित है:
- (A) गैंगटाक
 (B) अन्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
 (C) दमन एवं दियु
 (D) लक्षद्वीप
59. 2016 ओलम्पिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा?
- (A) टोक्यो
 (B) मैड्रिड
 (C) शिकागो
 (D) ब्राज़ील
60. ब्रिटीश साम्राज्य को सत्ता हस्तांतरण के उपरान्त कौन भारत का प्रथम वाईसराय नियुक्त हुआ:
- (A) लार्ड रिपन
 (B) लार्ड कैनिंग
 (C) लार्ड कर्जन
 (D) लार्ड इरविन
61. टेम्बली भारत का पहला आधार गाँव बना। यह गाँव किस राज्य में स्थित है:
- (A) कर्नाटक
 (B) मध्य-प्रदेश
 (C) महाराष्ट्र
 (D) उत्तर-प्रदेश
62. निम्न में कौन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है:
- (A) अशोक चक्र
 (B) महावीर चक्र
 (C) परम वीर चक्र
 (D) कीर्ति चक्र

63. A ball thrown up falls down because of:
- (A) Speed due to gravity
(B) Acceleration due to gravity **ANS.**
(C) Momentum due to gravity
(D) None of these
64. Ranjit Sagar Dam is located in the State of:
- (A) Himachal Pradesh
(B) Jammu & Kashmir
(C) Punjab **ANS.**
(D) Haryana
65. Under which plan it was fixed to hand over power to India on 15th August, 1947:
- (A) Cabinet Mission Plan
(B) Mountbatten Plan **ANS.**
(C) Cripps Mission
(D) None of the above
66. What is the chemical name of Gypsum:
- (A) Iron sulphide
(B) Calcium sulphate **ANS.**
(C) Magnesium sulphate
(D) Sodium sulphate
67. The Lok Sabha is called in session at least:
- (A) Once a year
(B) Twice a year **ANS.**
(C) Thrice a year
(D) Four times a year
68. Indian Military Academy is situated in:
- (A) Khadakvasala
(B) Pune
(C) Dehradun **ANS.**
(D) Kirkee
69. Which month of the national calendar has one day extra in case of leap year:
- (A) Sravana
(B) Pausa
(C) Asvina
(D) Chaitra **ANS.**
70. Which of the following cities has an atomic power plant:
- (A) Narora **ANS.**
(B) Panipat
(C) Wardha
(D) Patna
71. Days and Nights are equal throughout the year at
- (A) Tropic of cancer
(B) Tropic of Capricorn
(C) Equator **ANS.**
(D) Poles
63. ऊपर फेंकी गयी गेंद नीचे आ जाती है क्योंकि:
- (A) गुरुत्व के कारण चाल से
(B) गुरुत्व के कारण त्वरण से
(C) गुरुत्व के कारण आवेग से
(D) इनमें से कोई नहीं
64. रंजीत सागर बाँध किस राज्य में स्थित है:
- (A) हिमाचल प्रदेश
(B) जम्मू एवं कश्मीर
(C) पंजाब
(D) हरियाणा
65. किस प्लान के अन्तर्गत 15 अगस्त, 1947 को भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए नियत किया गया:
- (A) कैबिनेट मिशन प्लान
(B) माउंट बैटन प्लान
(C) क्रिप्स मिशन
(D) इनमें से कोई नहीं
66. जिप्सम का रासायनिक नाम है:
- (A) लौह सल्फाइड
(B) कैल्शियम सल्फेट
(C) मैग्नीशियम सल्फेट
(D) सोडियम सल्फेट
67. लोक सभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है:
- (A) वर्ष में एक बार
(B) वर्ष में दो बार
(C) वर्ष में तीन बार
(D) वर्ष में चार बार
68. भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है:
- (A) खडगवासला
(B) पुणे
(C) देहरादून
(D) किरकी
69. अधिवर्ष (लीपवर्ष) में राष्ट्रीय पंचांग के किस महीने में अतिरिक्त एक दिन आता है:
- (A) श्रावण
(B) पौष
(C) आश्विन
(D) चैत्र
70. निम्नलिखित में से किस शहर में एक अणुशक्ति संयंत्र है:
- (A) नरौरा
(B) पानीपत
(C) वर्धा
(D) पटना
71. दिन और रात किस पर पूरे वर्ष एक समान होते हैं:
- (A) कर्क रेखा पर
(B) मकर रेखा पर
(C) भूमध्य रेखा पर
(D) ध्रुव पर

72. Freezing point of water is same on these scales:

- (A) Centigrade and Fahrenheit
- (B) Centigrade and Reaumur **ANS.**
- (C) Centigrade and Kelvin
- (D) Fahrenheit and Kelvin

73. Deficiency of Vitamin A results in:

- (A) Loss of Appetite
- (B) Skin Diseases
- (C) Sterility
- (D) Night Blindness **ANS.**

74. Which is not a root:

- (A) Potato **ANS.**
- (B) Carrot
- (C) Sweet Potato
- (D) Raddish

75. Nitrogen is available for plants in the form of:

- (A) Nitrogen gas
- (B) Nitrogen dioxide
- (C) Nitrate **ANS.**
- (D) Nitric acid

76. The Constitution of India came into force on:

- (A) August 15, 1947
- (B) January 26, 1950 **ANS.**
- (C) November 26, 1949
- (D) January 26, 1942

77. Beri-Beri is caused by the lack of vitamin:

- (A) C
- (B) D
- (C) B1 **ANS.**
- (D) A

78. The Council of Ministers of Indian Union is collectively responsible to the:

- (A) Rajya Sabha
- (B) Prime Minister
- (C) President
- (D) Lok Sabha **ANS.**

79. Which of the following mountains are not falling under Himalaya range:

- (A) Mount Everest
- (B) Kanchenjunga
- (C) Nanda Devi
- (D) Godwin Austin **ANS.**

80. The disease rickets is caused by the deficiency of:

- (A) Vitamin –D **ANS.**
- (B) Vitamin –C
- (C) Vitamin –A
- (D) All of these

72. जल का जमाव बिन्दु किन स्केलों पर समान होता है:

- (A) सेन्टीग्रेड एवं फारेनहाइट
- (B) सेन्टीग्रेड एवं रीमर
- (C) सेन्टीग्रेड एवं केलविन
- (D) फारेनहाइट एवं केलविन

73. विटामिन 'ए' की कमी से:

- (A) भूख कम हो जाती है
- (B) त्वचा रोग हो जाता है
- (C) बांझपन हो जाता है
- (D) रतौंधी हो जाती है

74. कौन जड़ नहीं है:

- (A) आलू
- (B) गाजर
- (C) शकरकंद
- (D) मूली

75. पौधों के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है:

- (A) नाइट्रोजन गैस
- (B) नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड
- (C) नाइट्रेट
- (D) नाइट्रिक अम्ल

76. भारतीय संविधान कबसे लागू हुआ:

- (A) 15 अगस्त, 1947
- (B) 26 जनवरी, 1950
- (C) 26 नवम्बर, 1949
- (D) 26 जनवरी, 1942

77. बेरी-बेरी किस विटामिन की कमी से होता है:

- (A) सी
- (B) डी
- (C) बी1
- (D) ए

78. भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है:

- (A) राज्य सभा के लिए
- (B) प्रधान मंत्री के लिए
- (C) राष्ट्रपति के लिए
- (D) लोक सभा के लिए

79. हिमालय विस्तार में कौन-सा पर्वत शिखर नहीं आता है:

- (A) माउन्ट एवरेस्ट
- (B) कंचनजंगा
- (C) नन्दादेवी
- (D) गाडविन आस्टिन

80. किस कमी के कारण सूखा रोग होता है:

- (A) विटामिन-डी
- (B) विटामिन-सी
- (C) विटामिन-ए
- (D) उपर्युक्त सभी

81. How many bones are there in human body
 (A) 201 (B) 203
 (C) 210 (D) 206 **ANS.**
82. Malaria is caused by the mosquito bite of:
 (A) Female Anopheles **ANS.**
 (B) Male Anopheles
 (C) Aedes aegypti male
 (D) None of these
83. In human body unoxxygenated blood is purified by:
 (A) Lungs **ANS.** (B) Heart
 (C) Kidney (D) Lever
84. Williams sisters are known for the game:
 (A) Badminton (B) Table-Tennis
 (C) Tennis **ANS.** (D) None of these
85. The highest award in sports for a player in India is:
 (A) Dronacharya
 (B) Arjuna
 (C) Rajiv Gandhi Khel Ratna **ANS.**
 (D) Padma-Shree
86. The official mascot of Common Wealth Games 2010
 (A) Appu, the Elephant
 (B) Wenlock and Mandeville
 (C) Fuwa
 (D) Shera **ANS.**
87. In IPL Sachin Tendulkar is member of:
 (A) Chennai Super Kings
 (B) Mumbai Indians **ANS.**
 (C) Royal Challengers Bangalore
 (D) Kolkata Knight Riders
88. Which part of food gives us energy to work?
 (A) Minerals
 (B) Protein
 (C) Carbohydrates **ANS.**
 (D) Vitamins
89. Vitamins which are water soluble:
 (A) Vitamin A & B
 (B) Vitamin B & C **ANS.**
 (C) Vitamin K
 (D) Vitamin D
90. ELISA test is used to detect
 (A) Malaria infection
 (B) Cholera infection
 (C) HIV infection **ANS.**
 (D) Lung infection
81. मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं?
 (A) 201 (B) 203
 (C) 210 (D) 206
82. मलेरिया निम्न मच्छर के काटने से होता है:
 (A) मादा एनोफिलीस
 (B) नर एनोफिलीस
 (C) नर एडीस अएजिप्टी
 (D) इनमें से कोई नहीं
83. मानव शरीर में ऑक्सिजन रहित रक्त कहाँ शुद्ध होता है
 (A) फेफड़ों में (B) हृदय में
 (C) गुदों में (D) जिगर में
84. विलियमस बहनें निम्न खेल के लिए जानी जाती हैं:
 (A) बैडमिंटन (B) टेबल-टेनिस
 (C) टेनिस (D) इनमें से कोई नहीं
85. खिलाड़ीयों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार हैं
 (A) द्रोणाचार्य
 (B) अर्जुन
 (C) राजीव गांधी खेल रत्न
 (D) पद्म श्री
86. कॉमन वेल्थ खेल 2010 का अधिकारिक शुभंकर हैं
 (A) अप्पू हाथी
 (B) वेनलॉक व मंडेविल
 (C) फुआ
 (D) शेरा
87. आई.पी.एल. में सचिन तेन्दुलकर टीम के सदस्य हैं
 (A) चेन्नै सुपर किंग्स
 (B) मुम्बई इंडियन्स
 (C) रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु
 (D) कोलकाता नाईट राईडर्स
88. भोजन का कौन सा भाग हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है?
 (A) खनिज तत्व
 (B) प्रोटीन
 (C) कार्बोहाइड्रेट्स
 (D) विटामिन
89. पानी में घुलनशील विटामिन हैं:
 (A) विटामिन ए एवं बी
 (B) विटामिन बी एवं सी
 (C) विटामिन के
 (D) विटामिन डी
90. एलिसा परीक्षण निम्न के पहचान हेतु होता है
 (A) मलेरिया संक्रमण
 (B) हैजा संक्रमण
 (C) एच आई व्ही संक्रमण
 (D) फेफड़ों का संक्रमण

91. Which of the following gases is present under pressure in soft drinks?
 (A) Oxygen
 (B) Nitrogen
 (C) Carbon Dioxide **ANS.**
 (D) Nitrous Oxide
92. Which of the following blood group is universal recipient?
 (A) A (B) B
 (C) O (D) AB **ANS.**
93. Ankaleshwar in India is known for the production of:
 (A) Bauxite (B) Coal
 (C) Iron Ore (D) Petroleum **ANS.**
94. The common refrigerant used in domestic refrigerator is:
 (A) Neon (B) Oxygen
 (C) Nitrogen (D) Freon **ANS.**
95. In which of the following states is Sariska Tiger Sanctuary located?
 (A) Uttar Pradesh
 (B) Rajasthan **ANS.**
 (C) Gujarat
 (D) Maharashtra
96. Which of the following food items is rich in iron?
 (A) Rice
 (B) Apple
 (C) Pulses **ANS.**
 (D) Orange
97. Name the ore from which aluminium is extracted:
 (A) Isotherm
 (B) Aluminite
 (C) Bauxite **ANS.**
 (D) Isohel
98. The colour of star is an indication of:
 (A) Weight
 (B) Distance
 (C) Temperature **ANS.**
 (D) Size
99. India is a Union of States. Executive power of the Union is vested in the:
 (A) Prime Minister
 (B) President **ANS.**
 (C) Home Minister
 (D) Chief Justice
100. Which is the biggest epic:
 (A) Mahabharat **ANS.**
 (B) Ram Charit Manas
 (C) Bhagvad Gita
 (D) Asthadhyayi
91. मुदु पेय में दबाव के अन्तर्गत कौन-सी गैस विद्यमान रहती है:
 (A) ऑक्सीजन
 (B) नाइट्रोजन
 (C) कार्बन-डाईऑक्साइड
 (D) नाइट्रोअस ऑक्साइड
92. निम्नलिखित में से कौन-सा रक्त समूह सर्वग्राही है:
 (A) ए (B) बी
 (C) ओ (D) ए बी
93. भारतवर्ष में अंकलेश्वर को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है:
 (A) बॉक्साइट (B) कोयला
 (C) कच्चा लोहा (D) पेट्रोलियम
94. घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक है
 (A) नीयोन (B) ऑक्सीजन
 (C) नाइट्रोजन (D) फ्रीऑन
95. निम्नलिखित किस राज्य में सरिस्का टाईगर अभ्यारण स्थित है?
 (A) उत्तर-प्रदेश
 (B) राजस्थान
 (C) गुजरात
 (D) महाराष्ट्र
96. निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में लौह की प्रचुरता है?
 (A) चावल
 (B) सेब
 (C) दलहन
 (D) संतरा
97. उस अयस्क का नाम बताए जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है:
 (A) आइसोथर्म
 (B) एल्यूमिनाईट
 (C) बॉक्साइट
 (D) आइसोहेल
98. तारो का रंग व्यक्त करता है उसका:
 (A) भार
 (B) दूरी
 (C) तापमान
 (D) आकार
99. भारत राज्यों का एक संघ है। संघ की प्रशासनिक शक्तियाँ किसके अन्दर विद्यमान हैं:
 (A) प्रधानमंत्री
 (B) राष्ट्रपति
 (C) गृह मंत्री
 (D) मुख्य न्यायाधीश
100. सबसे बड़ा महाकाव्य कौन-सा है:
 (A) महाभारत
 (B) रामचरितमानस
 (C) भगवद्गीता
 (D) अष्टध्यायी

DIRECTIONS: In the following question, choose the alternative which can replace the word printed in bold and italic without changing the meaning of the sentence.

101. A bone got stuck in his *gullet*:

- (A) Chest
- (B) Throat **ANS.**
- (C) Stomach
- (D) Molars

DIRECTIONS: In the following question, choose the alternative which can replace the word printed in bold and italic without changing the meaning of the sentence.

102. She has an *insatiable* love for music:

- (A) Unchanging
- (B) Unsatisfiable **ANS.**
- (C) Undesirable
- (D) Irreconcilable

DIRECTIONS: In the following question, choose the alternative which can replace the word printed in bold and italic without changing the meaning of the sentence.

103. When he returned he was accompanied by a *sprightly* young girl:

- (A) Lively **ANS.**
- (B) Beautiful
- (C) Sportive
- (D) Intelligent

DIRECTIONS: In the following question, choose the alternative which can replace the word printed in bold and italic without changing the meaning of the sentence.

104. The art movie I watched this evening has put me in a *pensive* mood:

- (A) Confused
- (B) Depressed
- (C) Cheerful
- (D) Reflective **ANS.**

DIRECTIONS: In the following question, choose the alternative which can replace the word printed in bold and italic without changing the meaning of the sentence.

105. Before finalizing this transaction, I had to sign an *indemnity bond*:

- (A) A partnership bond
- (B) A reparation bond
- (C) A compensation bond
- (D) A security bond **ANS.**

DIRECTIONS: The following question is provided with the first and last parts of a sentences in bold letters. The remaining sentence is broken into four parts labeled P,Q,R and S. Arrange these parts so as to form a compete meaningful sentence.

106. Those that have seen the Hindus:

- P. Have naturally no more doubt.
- Q. Of the existence of other persons.
- R. Among them in their own country
- S. Of their existence than they have

Whom they have met

- (A) RPSQ
- (B) RQPS
- (C) PSQR **ANS.**
- (D) PSRQ

DIRECTIONS: The following question is provided with the first and last parts of a sentences in bold letters. The remaining sentence is broken into four parts labeled P,Q,R and S. Arrange these parts so as to form a compete meaningful sentence.

107. Gandhi wanted the Congress Party:

- P. For he knew that
- Q. Its usefulness and would merely be

- R. To be disbanded on independence
- S. After that the party had outlived

Used by some politicians for their own ends.

- (A) RPSQ **ANS.**
- (B) SQPR
- (C) PSQR
- (D) QSPR

DIRECTIONS: The following question is provided with the first and last parts of a sentences in bold letters. The remaining sentence is broken into four parts labeled P,Q,R and S. Arrange these parts so as to form a compete meaningful sentence.

108. Nothing is more common than the idea:

- P. Of the twentieth century
- Q. In the western world
- R. The people living
- S. That we

Are eminently same.

- (A) SPRQ
- (B) SRQP **ANS.**
- (C) PQRS
- (D) SPQR

DIRECTIONS: The following question is provided with the first and last parts of a sentences in bold letters. The remaining sentence is broken into four parts labeled P,Q,R and S. Arrange these parts so as to form a compete meaningful sentence.

109. The leader's public meeting was disrupted:

- P. By a section of the audience
- Q. Any firm assurance
- R. He had not given them
- S. Who felt that

For the solution of their problems.

- (A) RQPS
- (B) SRQP
- (C) PSRQ **ANS.**
- (D) QPSR

DIRECTIONS: The following question is provided with the first and last parts of a sentences in bold letters. The remaining sentence is broken into four parts labeled P,Q,R and S. Arrange these parts so as to form a compete meaningful sentence.

110. The code:

- P. Is normally put onto cards
- Q. That the computer understands
- R. Small holes are punched
- S. Through which

In specially arranged patterns

- (A) SRQP
- (B) SRPQ
- (C) PQSR
- (D) QPSR **ANS.**

DIRECTIONS: In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

111. A bull in a china shop:

- (A) A person who becomes too excited where no excitement is warranted
- (B) A person who is rough and clumsy where skill and care are required **ANS.**
- (C) A person who is very ugly but loves the beautiful things of life
- (D) A person who takes a sadistic delight in harming innocent people

DIRECTIONS : In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

112. To keep the wolf away from the door:

- (A) To keep alive
- (B) To hold the difficulties and dangers in check
- (C) To keep away from extreme poverty **ANS.**
- (D) To keep off an unwanted and undesirable person

DIRECTIONS : In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

113. Dog in the manger:

- (A) A person who puts himself in difficulties on account of other people.
- (B) A person who prevents others from enjoying something useless to himself. **ANS.**
- (C) An undersized bull almost the shape of a dog.
- (D) A dog that has no kennel of its own.

DIRECTIONS : In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

114. She was in a brown study and did not notice my entrance:

- (A) Sleep
- (B) Dream
- (C) Reverie (an act or state of absentminded day dreaming) **ANS.**
- (D) Fear

DIRECTIONS : In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

115. He was carried off his feet when he was declared to have won the prize:

- (A) Was dizzy
- (B) Was wild with excitement **ANS.**
- (C) Became delirious
- (D) Danced on his toes

DIRECTIONS : In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

116. In modern democratic societies Lynch law seems to have become a common feature in almost all the spheres of life:

- (A) Law of the Mob **ANS.**
- (B) Law of the underworld
- (C) Law of Parliament
- (D) Law of the Constitution.

DIRECTIONS : In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

117. Those persons who are ready to sail close to the wind can be successful in life:

- (A) To work hard
- (B) To be regular
- (C) To take risk **ANS.**
- (D) To manage his situation

DIRECTIONS : In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

118. His boss was always breathing down his neck:

- (A) Shouting loudly at him
- (B) Giving him strenuous work
- (C) Abusing and ill-treating him
- (D) Watching all his actions closely **ANS.**

DIRECTIONS : In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

119. He believes in the policy of making hay while the sun shine:

- (A) Helping those who help him
- (B) Seeking advice from one and all
- (C) Giving bribes to get his work done
- (D) Making the best use of a favourable situation **ANS.**

DIRECTIONS : In the following question, an idiomatic expression/a proverb has been given followed by some alternative. Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom or proverb.

120. The trade union's seemingly rightful demand is only a stalking horse to blackmail the management:

- (A) Pretence
- (B) Suggestions
- (C) Trick **ANS.**
- (D) Proposal

121. In the passage, the word "choultry" should mean:

- (A) A free resting place **ANS.**
- (B) A roadside eating shop
- (C) A highway model.
- (D) An expensive hotel.

Read the given passages carefully and answer the question following it.

Bansilal's train was late and it reached Bombay a little after midnight. It was his first visit to the city, and he didn't know where to go. He thought he would go to a choultry where he would not have to pay rent, but he did not know how to find one at that hour. He asked a porter to get him a cheap room. The porter said that if Bansilal gave him three rupees, he would take him to one. But Bansilal waved him away and walked out of the station. He wandered through the streets and asked a number of people, but could not find a room cheap enough for him. He sat down on a park bench to think what he should do next. He was very tired and fell asleep on the bench. He woke up the next morning stiff in every limb-but he smiled when he realized that it was the cheapest night's lodging that he had ever had.

122. The porter refused to help Bansilal because:

- (A) He had no previous acquaintance with the porter
- (B) He was rue to the porter
- (C) He refused to pay the porter any tips **ANS.**
- (D) He spoke a language which the porter could not understand.

Read the given passages carefully and answer the question following it.

Bansilal's train was late and it reached Bombay a little after midnight. It was his first visit to the city, and he didn't know where to go. He thought he would go to a choultry where he would not have to pay rent, but he did not know how to find one at that hour. He asked a porter to get him a cheap room. The porter said that if Bansilal gave him three rupees, he would take him to one. But Bansilal waved him away and walked out of the station. He wandered through the streets and asked a number of people, but could not find a room cheap enough for him. He sat down on a park bench to think what he should do next. He was very tired and fell asleep on the bench. He woke up the next morning stiff in every limb-but he smiled when he realized that it was the cheapest night's lodging that he had ever had.

123. Bansilal could not get any accommodation for the night because:

- (A) All the hotel rooms were booked
- (B) The hotels were too expensive for him to afford **ANS.**
- (C) He wanted to spend the night in the open
- (D) All the hotels in the city were closed.

Read the given passages carefully and answer the question following it.

Bansilal's train was late and it reached Bombay a little after midnight. It was his first visit to the city, and he didn't know where to go. He thought he would go to a choultry where he would not have to pay rent, but he did not know how to find one at that hour. He asked a porter to get him a cheap room. The porter said that if Bansilal gave him three rupees, he would take him to one. But Bansilal waved him away and walked out of the station. He wandered through the streets and asked a number of people, but could not find a room cheap enough for him. He sat down on a park bench to think what he should do next. He was very tired and fell asleep on the

bench. He woke up the next morning stiff in every limb-but he smiled when he realized that it was the cheapest night's lodging that he had ever had.

124. The night long in the open:

- (A) Gave him aches all over his body **ANS.**
- (B) Refreshed Bansilal
- (C) Did not affect him at all
- (D) Made his limbs stronger

Read the given passages carefully and answer the question following it.

Bansilal's train was late and it reached Bombay a little after midnight. It was his first visit to the city, and he didn't know where to go. He thought he would go to a choultry where he would not have to pay rent, but he did not know how to find one at that hour. He asked a porter to get him a cheap room. The porter said that if Bansilal gave him three rupees, he would take him to one. But Bansilal waved him away and walked out of the station. He wandered through the streets and asked a number of people, but could not find a room cheap enough for him. He sat down on a park bench to think what he should do next. He was very tired and fell asleep on the bench. He woke up the next morning stiff in every limb-but he smiled when he realized that it was the cheapest night's lodging that he had ever had.

125. From the passage, Bansilal emerges as:

- (A) An extravagant spender
- (B) A thrifty person **ANS.**
- (C) A fun-loving person
- (D) An adventure-seeking person

INSTRUCTIONS: In the following question, four spellings are given for a word. Pick the right choice which has the correct spelling.

126.

- (A) Enterpreneur
- (B) Entrepreneur **ANS.**
- (C) Entreprenuer
- (D) Enterepreneur

INSTRUCTIONS: In the following question, four spellings are given for a word. Pick the right choice which has the correct spelling.

127.

- (A) Bureaucracy **ANS.**
- (B) Bueracracy
- (C) Bureucracy
- (D) Bureuacracy

INSTRUCTIONS: In the following question, four spellings are given for a word. Pick the right choice which has the correct spelling.

128.

- (A) Vacume
- (B) Vaccum
- (C) Vacuum **ANS.**
- (D) Vaccume

INSTRUCTIONS: In the following question, four spellings are given for a word. Pick the right choice which has the correct spelling.

129.

- (A) Disobadiance
- (B) Disobidiance
- (C) Disobedience **ANS.**
- (D) Desobideence

INSTRUCTIONS: In the following question, four spellings are given for a word. Pick the right choice which has the correct spelling.

130.

- (A) Aknowledgement **ANS.**
- (B) Acknowledgement
- (C) Acknolegment
- (D) Aknolegdement

DIRECTIONS: The following item suggests three possible ways of completing the sentence. One or more of these may be correct. Choose the correct way or ways of completing the sentence.

131. We can learn much about philosophy with:

- (A) The help of the mathematics.
- (B) Help of the mathematics.
- (C) The help of mathematics. **ANS.**
- (D) None of these

DIRECTIONS: The following item suggests three possible ways of completing the sentence. One or more of these may be correct. Choose the correct way or ways of completing the sentence.

132. The new weapons were not:

- (A) Effective enough. **ANS.**
- (B) The effective enough.
- (C) An effective enough.
- (D) None of these

DIRECTIONS: The following item suggests three possible ways of completing the sentence. One or more of these may be correct. Choose the correct way or ways of completing the sentence.

133. Mr. Singh's wife:

- (A) Has come yesterday
- (B) Came yesterday **ANS.**
- (C) Had come yesterday
- (D) None of these

DIRECTIONS: The following item suggests three possible ways of completing the sentence. One or more of these may be correct. Choose the correct way or ways of completing the sentence.

134. Had Gita come into the room she:

- (A) Saw the child eating the paper.
- (B) Would see the child eating the paper.
- (C) Would have seen the child eating the paper. **ANS.**
- (D) None of these

DIRECTIONS: The following item suggests three possible ways of completing the sentence. One or more of these may be correct. Choose the correct way or ways of completing the sentence.

135. While I was sleeping she:

- (A) Was playing the sitar. **ANS.**
- (B) Must have played the sitar.
- (C) Played the sitar.
- (D) None of these

Read the given passages carefully and answer the question following it.

A. There was a marked difference of quality between the personages who haunted the near bridge of brick of brick and the personages who haunted the far one of stone. Those of lowest character preferred the former, adjoining the town; they did not mind the glare of the public eye. They had been of no account during their successes; and though they might feel dispirited, they had no sense of shame in their ruin. Instead of sighing at their adversaries they spat, and instead of saying the iron had entered into their luck. The miserables who would pause on the remoter bridge were of a politer stamp – persons who did not know how to get rid of the weary time. The eyes of this species were mostly directed over the parapet upon the running water below. While one on the townward bridge did not mind who saw him so, and kept his back to the parapet to survey the passer-by one on this never faced the road, never turned his head at coming footsteps, but, sensitive to his own condition, watched the current whenever a stranger approached, as if some strange fish interested him, though every finned thing had been poached out of the river years before.

136. The two bridges were known:

- (A) For attaching dejected people to them **ANS.**
- (B) For being equi-distant from town

- (C) For being haunted places.
- (D) For their similar design.

Read the given passages carefully and answer the question following it.

A. There was a marked difference of quality between the personages who haunted the near bridge of brick of brick and the personages who haunted the far one of stone. Those of lowest character preferred the former, adjoining the town; they did not mind the glare of the public eye. They had been of no account during their successes; and though they might feel dispirited, they had no sense of shame in their ruin. Instead of sighing at their adversaries they spat, and instead of saying the iron had entered into their luck. The miserables who would pause on the remoter bridge were of a politer stamp – persons who did not know how to get rid of the weary time. The eyes of this species were mostly directed over the parapet upon the running water below. While one on the townward bridge did not mind who saw him so, and kept his back to the parapet to survey the passer-by one on this never faced the road, never turned his head at coming footsteps, but, sensitive to his own condition, watched the current whenever a stranger approached, as if some strange fish interested him, though every finned thing had been poached out of the river years before.

137. People belonging to the lower strata, in their moments of distress:

- (A) Felt ashamed of their failures
- (B) Dressed shabbily to earn sympathy
- (C) Visited the brick-made bridge.
- (D) Remembered their days of glory. **ANS.**

Read the given passages carefully and answer the question following it.

A. There was a marked difference of quality between the personages who haunted the near bridge of brick of brick and the personages who haunted the far one of stone. Those of lowest character preferred the former, adjoining the town; they did not mind the glare of the public eye. They had been of no account during their successes; and though they might feel dispirited, they had no sense of shame in their ruin. Instead of sighing at their adversaries they spat, and instead of saying the iron had entered into their luck. The miserables who would pause on the remoter bridge were of a politer stamp – persons who did not know how to get rid of the weary time. The eyes of this species were mostly directed over the parapet upon the running water below. While one on the townward bridge did not mind who saw him so, and kept his back to the parapet to survey the passer-by one on this never faced the road, never turned his head at coming footsteps, but, sensitive to his own condition, watched the current whenever a stranger approached, as if some strange fish interested him, though every finned thing had been poached out of the river years before.

138. The bridge of stone was frequented by:

- (A) All the sections of society
- (B) The sophisticated but luckless
- (C) Those fond of fishing
- (D) None of the above. **ANS.**

Read the given passages carefully and answer the question following it.

A. There was a marked difference of quality between the personages who haunted the near bridge of brick of brick and the personages who haunted the far one of stone. Those of lowest character preferred the former, adjoining the town; they did not mind the glare of the public eye. They had been of no account during their successes; and though they might feel dispirited, they had no sense of shame in their ruin. Instead of sighing at their adversaries they spat, and instead of saying the iron had entered into their luck. The miserables who would pause on the remoter bridge were of a politer stamp – persons who did not know how to get rid of the weary time. The eyes of this species were mostly directed over the parapet upon the running water below. While one on the townward bridge did not mind who saw him so, and kept his back to the parapet to survey the passer-by one on this never faced the road, never turned his head at coming footsteps, but, sensitive to his own condition, watched the current whenever a stranger approached, as if some strange fish interested him, though every finned thing had been poached out of the river years before.

139. The attitude of the lowly and genteel towards strangers was:

- (A) Virulently hostile
- (B) Completely indifferent
- (C) Entirely different **ANS.**
- (D) Virtually the same

Read the given passages carefully and answer the question following it.

A. There was a marked difference of quality between the personages who haunted the near bridge of brick of brick and the personages who haunted the far one of stone. Those of lowest character preferred the former, adjoining the town; they did not mind the glare of the public eye. They had been of no account during their successes; and though they might feel dispirited, they had no sense of shame in their ruin. Instead of sighing at their adversaries they spat, and instead of saying the iron had entered into their luck. The miserables who would pause on the remoter bridge were of a politer stamp – persons who did not know how to get rid of the weary time. The eyes of this species were mostly directed over the parapet upon the running water below. While one on the townward bridge did not mind who saw him so, and kept his back to the parapet to survey the passer-by one on this never faced the road, never turned his head at coming footsteps, but, sensitive to his own condition, watched the current whenever a stranger approached, as if some strange fish interested him, though every finned thing had been poached out of the river years before.

140. In this passage, the author is trying to:

- (A) Explain the variety of ways in which strangers can be treated
- (B) Describe how people of different classes behaved when unhappy **ANS.**
- (C) Explain the difference between the construction of two bridges
- (D) Describe the way different sections of people like to dress.

141. Opposite of "FRESH"

- (A) Hot
- (B) Stale **ANS.**
- (C) Cold
- (D) New

142. Opposite of "CONVICT"

- (A) Accused
- (B) Guilty
- (C) Acquit **ANS.**
- (D) Criminal

143. The superlative of "BAD"

- (A) Baddest
- (B) Worse
- (C) Worst **ANS.**
- (D) The Most Bad

144. "Governor" shall be addressed:

- (A) Excellency **ANS.**
- (B) Lordship
- (C) Highness
- (D) Majesty

DIRECTIONS: In each of the following questions, choose the word opposite in meaning to the given word.

145. Curtail:

- (A) Shorten
- (B) Lengthen **ANS.**
- (C) Express
- (D) Narrow

DIRECTIONS: In each of the following questions, choose the word opposite in meaning to the given word.

146. Reprimand:

- (A) Quarrel
- (B) Rebuke
- (C) Hate
- (D) Praise **ANS.**

DIRECTIONS: In each of the following questions, choose the word opposite in meaning to the given word.

147. Heavy:

- (A) Light **ANS.**
- (B) Tough
- (C) Dark
- (D) Loaded

DIRECTIONS: Select the most suitable preposition from the four choices given for each sentence.

148. Sita is born rich parents:

- (A) For
- (B) Of **ANS.**
- (C) From
- (D) On

DIRECTIONS: Select the most suitable preposition from the four choices given for each sentence.

149. He insists leaving immediately:

- (A) Against
- (B) Over
- (C) For
- (D) On **ANS.**

DIRECTIONS: A phrase or idea is described in each question followed by four single word choices. Pick the choice which best explains the idea/phrase.

150. A person who does not speak too much:

- (A) Candid
- (B) Outspoken
- (C) Reticent **ANS.**
- (D) Defiant

Read the given passages carefully and answer the question following it.

Bansilal's train was late and it reached Bombay a little after midnight. It was his first visit to the city, and he didn't know where to go. He thought he would go to a choultry where he would not have to pay rent, but he did not know how to find one at that hour. He asked a porter to get him a cheap room. The porter said that if Bansilal gave him three rupees, he would take him to one. But Bansilal waved him away and walked out of the station. He wandered through the streets and asked a number of people, but could not find a room cheap enough for him. He sat down on a park bench to think what he should do next. He was very tired and fell asleep on the bench. He woke up the next morning stiff in every limb-but he smiled when he realized that it was the cheapest night's lodging that he had ever had.

DIRECTIONS: In the following question, four spellings are given for a word. Pick the right choice which has the correct spelling.

151.

- (A) Grammatical **ANS.**
- (B) Gramatical
- (C) Grammetical
- (D) Grammitical

DIRECTIONS: In the following question pick the wrong spelt word.

152.

- (A) Implement
- (B) Akward **ANS.**
- (C) Immolate
- (D) Average

DIRECTIONS: In the following question pick the wrong spelt word.

153.

- (A) Peripheral
- (B) Permeable

- (C) Audience **ANS.**
- (D) Perquisite

DIRECTIONS: In the following question pick the wrong spelt word.

154.

- (A) Servent **ANS.**
- (B) Delinquent
- (C) Abeyance
- (D) Emolument

DIRECTIONS: In these question fill in the blanks in the sentence with correct option.

155. **They still think that women are inferior men:**

- (A) To **ANS.**
- (B) Than
- (C) From
- (D) By

DIRECTIONS: In these question fill in the blanks in the sentence with correct option.

156. **The teacher was angry me:**

- (A) To
- (B) Upon
- (C) At **ANS.**
- (D) Against

DIRECTIONS: In these question fill in the blanks in the sentence with correct option.

157. **If you ice in warm water, it soon melts:**

- (A) Will place
- (B) Place **ANS.**
- (C) Would place
- (D) Placed

DIRECTIONS: In these question fill in the blanks in the sentence with correct option.

158. **When the post, I will bring it to your office:**

- (A) Will arrive
- (B) Arrives **ANS.**
- (C) Is arriving
- (D) Is going to arrive

159. **Opposite of "SMART"**

- (A) Lazy **ANS.**
- (B) Active
- (C) Fair
- (D) Casual

160. **Opposite of "DREADFUL"**

- (A) Amiable
- (B) Pleasant **ANS.**
- (C) Comfortable
- (D) Gratifying

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

161.

- (A) Congratulasion
- (B) Congretulation
- (C) Congrachulation
- (D) Congratulation **ANS.**

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

162.

- (A) Deligation
- (B) Delegation **ANS.**
- (C) Deligasion
- (D) Delegetion

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

163.

- (A) Invention **ANS.**
- (B) Inversion
- (C) Inventon
- (D) Inventeon

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

164.

- (A) Mathemeticion
- (B) Mathematicion
- (C) Mathematicion
- (D) Mathematician **ANS.**

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

165.

- (A) Maintenance **ANS.**
- (B) Maintinance
- (C) Maintenece
- (D) Mantenance

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

166.

- (A) Guardion
- (B) Guardian **ANS.**
- (C) Gardien
- (D) Guardain

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

167.

- (A) Electrification **ANS.**
- (B) Electrifecation
- (C) Electrificasion
- (D) Electrefication

168. Superlative of Good and opposite of worst is:

- (A) Best **ANS.**
- (B) Better
- (C) Bad
- (D) Worse

DIRECTIONS: Fill in the blanks.

169. NUM _ R _ T _ R

- (A) E, A, O **ANS.**
- (B) A, E, O
- (C) O, A, E
- (D) U, A, O

DIRECTIONS: Fill in the blanks.

170. D _ V _ D _ ND

- (A) I, I, E **ANS.**
- (B) E, I, E

- (C) E, I, I
- (D) E, E, I

DIRECTIONS: Fill in the blank in the following using the correct article.

171. I met one eyed man on the road:

- (A) A **ANS.**
- (B) An
- (C) The
- (D) None of these

INSTRUCTIONS: Fill the sentence with appropriate preposition.

172. The father was concerned the safety of his child:

- (A) About **ANS.**
- (B) At
- (C) For
- (D) Upon

INSTRUCTIONS: Fill the sentence with appropriate preposition.

173. The reward should be commensurate the work done:

- (A) For
- (B) On
- (C) With **ANS.**
- (D) Of

INSTRUCTIONS: Fill the sentence with appropriate preposition.

174. He comes to school daily 07:00 a.m.

- (A) At **ANS.**
- (B) Upon
- (C) On
- (D) In

INSTRUCTIONS: Fill the sentence with appropriate preposition.

175. I bought this book ten rupees:

- (A) In
- (B) At
- (C) For **ANS.**
- (D) By

INSTRUCTIONS: Fill the sentence with appropriate preposition.

176. He is very ashamed what he said:

- (A) For
- (B) By
- (C) At
- (D) Of **ANS.**

INSTRUCTIONS: Fill the sentence with appropriate preposition.

177. Don't look me like that!

- (A) To
- (B) At **ANS.**
- (C) For
- (D) Upon

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

178.

- (A) Administration **ANS.**
- (B) Admenistration
- (C) Administretion

(D) Administrasion

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

179.

- (A) Annivarsary
- (B) Anniversary **ANS.**
- (C) Anneversary
- (D) annivarsery

DIRECTIONS: Find out the correctly spelt word.

180.

- (A) Multiplication **ANS.**
- (B) Multiplecation
- (C) Multiplicasion
- (D) Maltiplication

DIRECTIONS: Choose the word which is most opposite in meaning as given word in bold.

181. **BARBARIAN**–

- (A) Heroic
- (B) Civilised **ANS.**
- (C) Nationalist
- (D) Foreigner

DIRECTIONS:– Choose the correct alternative to complete the sentence.

182. **Did no one him:**

- (A) Had help
- (B) Helped
- (C) Have help
- (D) Help **ANS.**

DIRECTIONS:– Choose the correct alternative to complete the sentence.

183. **When I met him, he eating a banana:**

- (A) Is
- (B) Has been
- (C) Was **ANS.**
- (D) Had been

DIRECTIONS:– Choose the correct alternative to complete the sentence.

184. **Teacher: Have you done your home-work?**

Student: Yes, Sir. I:

- (A) Have done it **ANS.**
- (B) Did it
- (C) Had done it
- (D) Did not do it

DIRECTIONS:– Choose the correct alternative to complete the sentence.

185. **The boys are perspiring. They tennis for two hours:**

- (A) Were playing
- (B) Have been playing **ANS.**
- (C) Had been playing
- (D) Are playing

DIRECTIONS:– Choose the correct alternative to complete the sentence.

186. **They went home after they their home work:**

- (A) Have finished
- (B) Did finish
- (C) Had finished **ANS.**
- (D) Finish

DIRECTIONS:– Choose the correct alternative to complete the sentence.

187. I be fifty next birth day:

- (A) Would (B) Will
(C) Should (D) Shall **ANS.**

DIRECTIONS:– Choose the correct alternative to complete the sentence.

188. By the end of this year I have read six plays of Shakespeare:

- (A) Shall **ANS.**
(B) Should
(C) Will
(D) Would

DIRECTIONS:– Choose the correct alternative to complete the sentence.

189. This child if the train had not stopped quickly:

- (A) Will have been killed
(B) Would have been killed **ANS.**
(C) Had been killed
(D) Had had been killed

DIRECTIONS:– Choose the correct alternative to complete the sentence.

190. I that you have bought some new books:

- (A) Am seen
(B) Am seeing
(C) Have seen
(D) See **ANS.**

191. Opposite of debtor:

- (A) Creditor **ANS.**
(B) Lessee
(C) Owner
(D) Messenger

192. Which of the following will sting?

- (A) Dog
(B) Scorpion **ANS.**
(C) Cat
(D) Lizard

DIRECTIONS: In each of the following question, six words are given denoted by A, B, C, D, E & F. By using the six words each only once, you have to frame a meaningful and grammatically correct sentence. The correct order of words is your answer. Choose from the four alternatives the one having correct order of the words. Mark it as your answer on the answer sheet.

193.

- A. Work D. Other
B. There E. Today
C. No F. Is
(A) DAFEBC
(B) BFCDAE **ANS.**
(C) CDABFE
(D) BFACDE

DIRECTIONS: In each of the following question, six words are given denoted by A, B, C, D, E & F. By using the six words each only once, you have to frame a meaningful and grammatically correct sentence. The correct order of words is your answer. Choose from the four alternatives the one having correct order of the words. Mark it as your answer on the answer sheet.

194.

- A. Name D. Asked
B. They E. Me

- C. My F. Correct
(A) CFABDE (B) BDCFAE
(C) BDECAF (D) None of these **ANS.**

DIRECTIONS: Choose the word which is most nearly the same in meaning as the word given in bold.

195. ENOUGH:

- (A) Adequate **ANS.** (B) Inadequate
(C) Complete (D) Balance

DIRECTIONS: Choose the word which is most nearly the same in meaning as the word given in bold.

196. DEDICATED:

- (A) Devoted **ANS.** (B) Loyal
(C) Sincere (D) Submissive

DIRECTIONS: Pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete.

197. If I the prime minister of India, I would do things differently:

- (A) am (B) is
(C) were **ANS.** (D) was

DIRECTIONS: Pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete.

198. Barking dogs seldom:

- (A) Bite **ANS.** (B) Bites
(C) Eat (D) Pet

DIRECTIONS: Choose the word which is most opposite in meaning as given word in bold.

199. ETERNAL-

- (A) Momentary **ANS.** (B) Everlasting
(C) Continual (D) Endless

DIRECTIONS: Choose the word which is most opposite in meaning as given word in bold.

200. RECREATION-

- (A) Boredom **ANS.** (B) Entertainment
(C) Joy (D) Diversion